



VANASTHALI **GYANPEETH**

Knowledge is the best power

MID TERM EXAMINATION PORTION

CLASS – LKG

SUBJECT : - ENGLISH (Written & Oral)

1. Learn five fruits name.
2. Learn five vegetables name
3. Learn Vowels
4. Learn a, e and i sounding words.
5. Learn one-one words from A to M
6. Learn alphabets (A to Z)
7. Learn five parts of body name.
8. Learn five domestic animals name
9. Learn five wild animals name
10. Learn two letter words.
11. English Book–Learn Pg. No. from-15, 16, 54, 56, 57, 58 & 59

English Rhymes: Learn Pg. No. 3 to 15

SUBJECT : - MATHEMATICS (Written & Oral)

1. Learn counting from 1 to 100
2. Learn backward counting from 50 to 1
3. Learn the number name from 1 to 25.
4. Learn table of 2 and 3
5. Practice for put the sign $>$, $<$ or $=$
6. Practice for addition (+)
7. Practice for after, before and between.

8. Practice for circle the largest number.
9. Practice for circle the smallest number.

Maths Book:

Learn Pg. No. 9, 12, 16, 18, 21, 34, 38 and 70.
Practice for more and less Pg. No. – 61.

SUBJECT : - HINDI (Written & Oral)

1. स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण याद करें।
2. दो अक्षर वाले दस शब्द याद करें।
3. तीन अक्षर वाले दस शब्द याद करें।
4. पाँच फलों के नाम याद करें।
5. पाँच सब्जियों के नाम याद करें।
6. अ से ऊ तक एक-एक शब्द याद करें।
7. क से ढ तक एक-एक शब्द याद करें।
8. पाँच रंगों के नाम याद करें।

Hindi Book : -

पृष्ठ संख्या 2 से 12, 16 और 23 याद करें।

Hindi Rhymes : -

पृष्ठ संख्या 3, 4, 6, 7, 8 और 10 तक याद करें।


